

सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल

[कर्मचारी और ग्राहक]

अगर आपको
खांसी या बुखार
है तो फ़ैसिलिटी
मेंजाने से बचें!



एक-दूसरे से कम से कम 6 फुट की दूरी
बनाए रखें।



- किसी से भी हाथ न मिलाएं।
- गैर-ज़रूरी शारीरिक संपर्क से बचें।

खांसने या छींकने के लिए कपड़े
या टिशू का इस्तेमाल करें, अगर
आपके पास वह नहीं है तो
अपनी कोहनी में खांसें या छीकें।

